

परिशिष्ट सारणी VI.3: एनबीएफसी-एमएल का समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़)

| मद                                          | मार्च 2023 के अंत में | मार्च 2024 के अंत में | मार्च 2025 के अंत में | सितंबर 2025 के अंत में | प्रतिशत अंतर 2024-25 |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 1                                           | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                    |
| 1. शेयर पूंजी                               | 1,18,734              | 1,36,076              | 1,38,050              | 1,38,706               | 1.5                  |
| 2. आरक्षित निधि और अधिशेष                   | 6,63,988              | 8,05,549              | 9,26,665              | 9,42,937               | 15.0                 |
| 3. जनता की जमाराशियां                       | 20,178                | 19,858                | 20,525                | 21,607                 | 3.4                  |
| 4. कुल उधार (ए+बी)                          | 22,30,810             | 25,12,878             | 29,14,280             | 30,93,364              | 16.0                 |
| ए. जमानती उधार                              | 11,10,542             | 12,13,171             | 13,29,682             | 14,02,230              | 9.6                  |
| ए.1. डिबेंचर                                | 4,09,128              | 4,12,734              | 4,57,273              | 4,89,291               | 10.8                 |
| ए.2. बैंकों से उधार                         | 5,88,642              | 6,68,392              | 7,13,997              | 7,17,537               | 6.8                  |
| ए.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार               | 46,422                | 55,401                | 63,933                | 64,683                 | 15.4                 |
| ए.4. अर्जित ब्याज                           | 9,081                 | 8,804                 | 8,058                 | 8,229                  | -8.5                 |
| ए.5. अन्य                                   | 57,270                | 67,839                | 86,421                | 1,22,490               | 27.4                 |
| बी. गैर-जमानती उधार                         | 11,20,267             | 12,99,708             | 15,84,598             | 16,91,134              | 21.9                 |
| बी.1. डिबेंचर                               | 4,72,982              | 5,48,821              | 6,72,617              | 7,10,177               | 22.6                 |
| बी.2. बैंकों से उधार                        | 2,12,209              | 2,56,623              | 3,10,362              | 3,62,156               | 20.9                 |
| बी.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार              | 13,149                | 17,715                | 19,733                | 24,844                 | 11.4                 |
| बी.4. रिश्तेदारों से उधार                   | 1,765                 | 1,907                 | 2,152                 | 2,423                  | 12.8                 |
| बी.5. अंतर-कॉरपोरेट उधार                    | 78,504                | 79,826                | 1,06,117              | 1,28,412               | 32.9                 |
| बी.6. वाणिज्यिक पत्र                        | 44,070                | 51,293                | 73,928                | 85,034                 | 44.1                 |
| बी.7. अर्जित ब्याज                          | 15,770                | 18,480                | 21,948                | 25,040                 | 18.8                 |
| बी.8. अन्य                                  | 2,81,818              | 3,25,043              | 3,77,741              | 3,53,048               | 16.2                 |
| 5. वर्तमान देयताएं और प्रावधान              | 2,84,171              | 3,05,588              | 3,27,615              | 3,55,683               | 7.2                  |
| <b>कुल देयताएं/कुल आस्ति</b>                | <b>33,17,880</b>      | <b>37,79,949</b>      | <b>43,27,135</b>      | <b>45,52,297</b>       | <b>14.5</b>          |
| 1. ऋण और अग्रिम                             | 24,95,502             | 28,67,111             | 33,22,733             | 34,88,965              | 15.9                 |
| 1.1. जमानती                                 | 16,80,739             | 21,84,049             | 25,28,823             | 26,36,646              | 15.8                 |
| 1.2. गैर-जमानती                             | 8,14,763              | 6,83,063              | 7,93,910              | 8,52,319               | 16.2                 |
| 2. निवेश                                    | 4,57,942              | 5,71,606              | 6,49,368              | 6,65,497               | 13.6                 |
| 2.1. सरकारी प्रतिभूतियां                    | 54,390                | 72,614                | 97,693                | 1,08,408               | 34.5                 |
| 2.2. इक्विटी शेयर                           | 2,68,591              | 3,60,250              | 3,81,385              | 3,46,781               | 5.9                  |
| 2.3. अधिमानी शेयर                           | 6,967                 | 8,574                 | 8,892                 | 8,745                  | 3.7                  |
| 2.4. डिबेंचर और बॉण्ड                       | 31,561                | 36,209                | 45,440                | 47,578                 | 25.5                 |
| 2.5. म्यूचुअल फंड के यूनिट                  | 55,629                | 50,026                | 68,011                | 1,02,065               | 35.9                 |
| 2.6. वाणिज्यिक पत्र                         | 485                   | 1,566                 | 1,536                 | 3,387                  | -1.9                 |
| 2.7. अन्य निवेश                             | 40,319                | 42,368                | 46,411                | 48,534                 | 9.5                  |
| 3. नकद और बैंक जमा शेष                      | 1,25,159              | 1,30,332              | 1,49,535              | 1,75,192               | 14.7                 |
| जिनमें से:                                  |                       |                       |                       |                        |                      |
| 3.1. हाथ में नकदी                           | 5,738                 | 5,774                 | 4,410                 | 22,338                 | -23.6                |
| 3.2. बैंकों के पास जमाराशियां               | 1,08,921              | 1,13,416              | 1,29,819              | 1,37,645               | 14.5                 |
| 4. अन्य                                     | 2,39,276              | 2,10,900              | 2,05,499              | 2,22,643               | -2.6                 |
| <b>मेमो मद</b>                              |                       |                       |                       |                        |                      |
| 1. पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई)             | 2,66,164              | 3,52,575              | 3,74,866              | 3,75,160               | 6.3                  |
| जिनमें से: इक्विटी शेयर                     | 1,98,622              | 2,75,344              | 2,79,369              | 2,69,230               | 1.5                  |
| 2. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएमई | 8.0                   | 9.3                   | 8.7                   | 8.2                    |                      |
| 3. लीवरेज अनुपात                            | 4.3                   | 4.0                   | 4.0                   | 4.2                    |                      |

-: लागू नहीं अथवा उपलब्ध नहीं अथवा शून्य।

**टिप्पणियाँ:** 1. डेटा अनंतिम है। प्रतिशत के आंकड़े पूर्णांकित हैं।

2. अपर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) के लिए डेटा।

3. यह डेटा आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी की सूची के अनुसार लेयर्स आधार पर एनबीएफसी के वर्गीकरण पर आधारित है। मार्च-2025 तक एनबीएफसी की लेयर-वाइज पहचान 31 दिसंबर 2024 तक उनकी स्थिति पर आधारित है। जनवरी और सितंबर 2025 के बीच जहां एनबीएफसी-लेयर में बदलाव हुआ है, उसे छोड़कर सितंबर-2025 के लिए, उसी स्थिति पर विचार किया गया है।

**स्रोत:** पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।